



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 पौष 1937 (श०)  
(सं० पटना 6) पटना, बृहस्पतिवार, 7 जनवरी 2016

---

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

7 अक्तूबर 2015

सं० 22 नि० सि० (मोति०)—08-15/2014/2300—श्री सचिन कुमार (आई० डी०—5130 औबंधिक), सहायक अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल, बेतिया के पद पर पदस्थापित थे तब इनके विरुद्ध चम्पारण तटबंध के कि० मी० 8.5 पर हुए टूटान/कटाव में बरती गई लापरवाही, मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के लिए प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 1109 दिनांक 16.08.14 द्वारा निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 में विहित रीति से विभागीय संकल्प संख्या 27 दिनांक 06.01.15 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 604 दिनांक 25.06.15 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री कुमार, सहायक अभियंता को आरोप मुक्त एवं निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री कुमार, सहायक अभियंता को (1) निलंबन से मुक्त करते हुए मुख्यालय में योगदान देने हेतु निदेशित किया गया जाता है। (2) निलंबन अवधि को कर्त्तव्य अवधि माना जायेगा।

उक्त आदेश श्री कुमार को संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
गजानन मिश्र,  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 6-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>